

**Shrimati Lakshmi Menon:** I do not know about the response to the letter sent by the brother of the murdered man. But every effort has been made. A question has already been answered on the floor of the House that because of the absence of local police system, it was not possible to conduct the enquiry except with the aid of the central system. As I have already pointed out, the Advisor of the Governor of Assam has been instructed to launch a prosecution and initiate committal proceedings as a result of investigation and Ganpat Rai has been placed under suspension with effect from 7-3-1957.

#### कागज का उत्पादन

\*६४६ श्री भवन दर्शन क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री १४ मई १९५७ को तारकित प्रश्न संख्या ८ के उत्तर के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसे मैं यह बताया गया हो कि

(क) कागज के जिन तेरह बड़े और नौ छोटे कारखानों का स्थापित करने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं वे कहा-बहा स्थापित किये जायेंगे

(ख) हाथ से कागज बनाने वाले पंचायत क्षेत्र किन-किन स्थानों में स्थापित किये गये हैं

(ग) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस प्रकार के कुल कितने कारखाने व केन्द्र स्थापित किये जायेंगे, और

(घ) शेष कारखानों या केन्द्रों को स्थापित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री वासुदेव) . एक विवरण सभा की मेज पर रखा जाता है।

श्री भवन दर्शन माननीय मंत्री जी को इस विवरण के लिये धन्यवाद देते हुए मैं यह पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बार अख्तियारी कागज का एक कारखाना स्थापित करने का एक प्रस्ताव रखा था। इस सूची में वह नहीं दिखाई नहीं देता है। मैं जानना चाहता हूँ कि उस के बारे में क्या निर्णय दिया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई साहू) : ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है।

श्री भवन दर्शन उस सम्बन्ध में गिच्छे अतिवेदन में मैंने भी दो प्रश्न रखे थे और उन पर उत्तर में मुझे बताया गया था कि इस पर विचार किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री महोदय अपनी पुरानी फ़र्याद को देखने की कृपा करेंगे ?

श्री मनुभाई साहू मुझे याद है कि मैंने यह कहा था कि दो खानगी व्यक्तियों को हम न कहा है कि वे अग्रगण्य लगाता चाहते हैं तो हम कसिटर करने को तैयार हैं। लेकिन जो प्रश्न माननीय सदस्य ने किया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने दरखास्त भेजी है या नहीं, उस के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि कोई दरखास्त नहीं भेजी है।

12 hrs

**Shri Dasappa:** May I know whether the new excise duty levied on paper will apply to hand-made paper or will it be exempted?

**The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari):** No, Sir Hand-made paper is exempt from duty.